

घोषणा

मैं एतद्वारा ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच)/डायरेक्ट डेबिट में भागीदारी के माध्यम से ऊपर बताई गई अपनी पॉलिसी का प्रीमियम डेबिट करने के लिए, डायरेक्ट डेबिट सुविधा का लाभ उठाने हेतु स्पष्ट तौर पर अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, मेरे खाते से डेबिट की जाने वाली प्रीमियम की राशि समय-समय पर लागू करों और अन्य वैधानिक शुल्कों के कारण भिन्न हो सकती है। मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि, इस पॉलिसी के संबंध में ट्रांजेक्शन नियत तारीख (बशर्ते कि वह कामकाजी दिन हो) पर किया जाएगा। अगर मेरा ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट सक्रिय है तो मैं बैंक को अपने बैंक अकाउंट से राशि तब तक डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जब तक कि मैं ACH/डायरेक्ट डेबिट को रद्द करने के लिए लिखित में अनुरोध (रद्द करने के लिए लिखित अनुरोध प्रीमियम की देय तिथि से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए) नहीं भेज दूँ। मैं एतद्वारा एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरे प्रीमियम के भुगतान के लिए /डायरेक्ट डेबिट सुविधा को सक्षम करने तथा ACH/डायरेक्ट डेबिट को अस्वीकृत किए जाने पर देय प्रीमियम की वसूली के लिए ऊपर बताए गए बैंक में मेरे अकाउंट को फिर से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। भविष्य में, अगर मैं ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड से बाहर निकलना चाहता/चाहती हूँ, तो मुझे अपना अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि, इस मोड से बाहर निकलने की स्थिति में मेरे प्रीमियम की राशि बढ़ सकती है जो पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन है। मैं समझता/समझती हूँ कि, पॉलिसी के तहत कोई भी भुगतान पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी भुगतान अंतिम रिन्यूअल प्रीमियम के भुगतान की प्राप्ति के अधीन होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, कंपनी भुगतान प्राप्त करने के किसी भी वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ध्यान दें

अगर आप अपने बैंक या बैंक अकाउंट के विवरण में बदलाव करना चाहते हैं, तो कंपनी को मौजूदा ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड NACH सबमिशन की नियत तारीख से 15 दिन पहले एक नए मंडेट की आवश्यकता होगी।

पॉलिसीधारक ध्यान दें कि उनका बैंक मंडेट प्रोसेसिंग हेतु एक बार का शुल्क ले सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसूची में बताया गया है।

पॉलिसीधारक इस बात को भी ध्यान में रखें कि, अगर किसी वजह से ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट अस्वीकृत हो जाता है, तो एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि बैंकों द्वारा नवीनतम बैंक अनुसूची के अनुसार ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं।

घोषणा

मैं एतद्वारा ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच)/डायरेक्ट डेबिट में भागीदारी के माध्यम से ऊपर बताई गई अपनी पॉलिसी का प्रीमियम डेबिट करने के लिए, डायरेक्ट डेबिट सुविधा का लाभ उठाने हेतु स्पष्ट तौर पर अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, मेरे खाते से डेबिट की जाने वाली प्रीमियम की राशि समय-समय पर लागू करों और अन्य वैधानिक शुल्कों के कारण भिन्न हो सकती है। मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि, इस पॉलिसी के संबंध में ट्रांजेक्शन नियत तारीख (बशर्ते कि वह कामकाजी दिन हो) पर किया जाएगा। अगर मेरा ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट सक्रिय है तो मैं बैंक को अपने बैंक अकाउंट से राशि तब तक डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जब तक कि मैं ACH/डायरेक्ट डेबिट को रद्द करने के लिए लिखित में अनुरोध (रद्द करने के लिए लिखित अनुरोध प्रीमियम की देय तिथि से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए) नहीं भेज दूँ। मैं एतद्वारा एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरे प्रीमियम के भुगतान के लिए /डायरेक्ट डेबिट सुविधा को सक्षम करने तथा ACH/डायरेक्ट डेबिट को अस्वीकृत किए जाने पर देय प्रीमियम की वसूली के लिए ऊपर बताए गए बैंक में मेरे अकाउंट को फिर से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। भविष्य में, अगर मैं ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड से बाहर निकलना चाहता/चाहती हूँ, तो मुझे अपना अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि, इस मोड से बाहर निकलने की स्थिति में मेरे प्रीमियम की राशि बढ़ सकती है जो पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन है। मैं समझता/समझती हूँ कि, पॉलिसी के तहत कोई भी भुगतान पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी भुगतान अंतिम रिन्यूअल प्रीमियम के भुगतान की प्राप्ति के अधीन होगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ और सहमति देता/देती हूँ कि, कंपनी भुगतान प्राप्त करने के किसी भी वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ध्यान दें

अक्षर आप अपने बैंक या बैंक अकाउंट के विवरण में बदलाव करना चाहते हैं, तो कंपनी को मौजूदा ACH / डायरेक्ट डेबिट मोड NACH सबमिशन की नियत तारीख से 15 दिन पहले एक नए मंडेट की आवश्यकता होगी।

पॉलिसीधारक ध्यान दें कि उनका बैंक मंडेट प्रोसेसिंग हेतु एक बार का शुल्क ले सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसूची में बताया गया है।

पॉलिसीधारक इस बात को भी ध्यान में रखें कि, अगर किसी वजह से ACH / डायरेक्ट डेबिट मंडेट अस्वीकृत हो जाता है, तो एडलवाइस लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि बैंकों द्वारा नवीनतम बैंक अनुसूची के अनुसार ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं।